



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 35]
No. 35]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 12, 2007/माघ 23, 1928
NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 12, 2007/MAGHA 23, 1928

वित्त मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग)
(बजट प्रभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 फरवरी, 2007

8.23 प्रतिशत भारत सरकार एफसीआई विशेष बांड, 2027 का निर्गम

एफ सं. 4 (12)-डब्ल्यू एंड एम/2006.—भारत सरकार एतद्वारा 12 फरवरी, 2007 को कुल 6,200 करोड़ रुपये (नामिनल) की राशि के लिए 8.23 प्रतिशत भारत सरकार एफसीआई "विशेष बांड", 2027 (जिन्हें इसके बाद संक्षिप्त रूप में "विशेष बांड" के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) का निर्गम अधिसूचित करती है।

1. विशेष बांड में अभिदान की पात्रता और अभिदान की सीमा

केवल भारतीय खाद्य निगम (जिसे इसके बाद एफसीआई के रूप में संदर्भित किया गया है) ही विशेष बांडों में अभिदान करने के लिए पात्र होगा। बैंक, कंपनी, निगम अथवा कोई अन्य निकाय सहित अन्य कोई व्यक्ति विशेष बांड में अभिदान के लिए पात्र नहीं होगा।

2. मूल्य

विशेष बांड न्यूनतम 10,000 रुपये (नामिनल) की राशि के सममूल्य पर और उसके बाद 10,000 रुपये के गुणजों में जारी किए जाएंगे।

3. आवेदन पत्र

विशेष बांड एफसीआई से आवेदन पर अनुबंध में दिए गए प्रपत्र के जारी किए जाएंगे।

4. प्रतिभूति का स्वरूप

विशेष बांड स्टॉक के रूप में अर्थात् 'स्टॉक प्रमाण पत्रों' के रूप में जारी किए जाएंगे अथवा भारतीय रिजर्व बैंक, फोर्ट, मुंबई के लोक ऋण कार्यालय में धारित सहायक सामान्य बही लेखा में क्रेडिट किए जाएंगे।

5. कार्यकाल का प्रारम्भ और अदायगी की तारीख

विशेष बांड का कार्यकाल 12 फरवरी, 2007 से शुरू होगा। विशेष बांड पर ब्याज उनकी अवधि की प्रारम्भ की तारीख से उपचित होगा। विशेष बांडों की अदायगी सममूल्य पर 12 फरवरी, 2027 को भारतीय रिजर्व बैंक, मुम्बई के लोक ऋण कार्यालय में की जाएगी।

6. ब्याज

विशेष बांड पर 8.23 प्रतिशत वार्षिक की दर पर ब्याज प्राप्त होगा। ब्याज का हिसाब विशेष बांड की अवधि प्रारम्भ होने की तारीख से लगाया जाएगा और यह विशेष बांड की परिपक्वता तक अर्द्धवार्षिक रूप से 12 अगस्त और 12 फरवरी को देय होगा।

विशेष बांड पर ब्याज का भुगतान भारतीय रिजर्व बैंक, फोर्ट, मुम्बई के लोक ऋण कार्यालय में किया जाएगा। ब्याज का भुगतान ब्याज की राशि को निकटतम रूपए तक पूर्णांकित करने के बाद किया जाएगा।

7. हस्तांतरणीयता

(i) इस अधिसूचना के पैरा 4 के प्रावधानों के अधीन, धारक द्वारा लोक ऋण अधिनियम, 1944 तथा इसके अंतर्गत निर्मित लोक ऋण नियमावली, 1946 के अंतर्गत विशेष बांड का नवीकरण, उप-विभाजन, समेकन, रूपान्तरण अथवा अंतरण किया जा सकता है।

(ii) इस अधिसूचना में ऊपर पैरा 1 में दिए गए कथन के बावजूद, अभिदानकर्ताओं द्वारा विशेष बांड को बैंकों, निगम अथवा किसी अन्य निकाय सहित किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में अंतरण करने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा और ऐसी प्रतिभूति का अन्तरिती भी उन्हें उसी तरीके से धारण तथा अंतरण करने का पात्र होगा।

8. सांविधिक प्रावधान

ऐसे किसी भी मामले के संबंध में जिसकी व्यवस्था इस अधिसूचना के तहत नहीं की गई है, विशेष बांड लोक ऋण अधिनियम, 1944 और उसके तहत निर्मित लोक ऋण नियमावली, 1946 द्वारा नियंत्रित किए जाएंगे।

9. कर कानून की प्रयोज्यता

विशेष बांड में निवेश का मूल्य और उस पर देय ब्याज समय-समय पर लागू कर कानूनों के प्रावधानों द्वारा शासित किए जाएंगे।

10. बांड की पात्रता

भारतीय खाद्य निगम अथवा, बैंक अथवा वित्तीय संस्थाओं, निगमों सहित अन्य संस्थाओं द्वारा अथवा अन्य किसी निकाय द्वारा विशेष बांड में किए गए निवेश को, जिसमें बांड को बाद में पात्र निवेश के रूप में अन्तरित किया जाता है, उसे किसी सांविधिक आवश्यकता के अनुपालन में जैसा भी मामला हो, पात्र निवेश के रूप में नहीं माना जाएगा।

भारत के राष्ट्रपति के आदेश से
एल. एम. वास, संयुक्त सचिव

अनुबंध

स्थान:

तिथि:

क्षेत्रीय निदेशक
लोक ऋण कार्यालय,
भारतीय रिजर्व बैंक,
मुम्बई 400 001

विषय:- 8.23 प्रतिशत भारत सरकार एफसीआई विशेष बांड, 2027 ।

महोदय,

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 4(12)-डब्ल्यूएंडएम/2006 दिनांक 12 फरवरी, 2007 की शर्तों के अंतर्गत हम करोड़ रुपये की समग्र राशि के शीर्षकांकित बांड में अभिदान करने के पात्र हैं।

हमें विशेष बांडों को शासित करने वाले नियम एवं शर्तें स्वीकार्य हैं और हम आपसे हमारे पक्ष में बांड जारी करने का अनुरोध करते हैं।

भवदीय,

हस्ताक्षर:

नाम:

पदनाम:

कार्यालय मुहर/स्टाम्प

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economic Affairs)
(BUDGET DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th February, 2007

Issue of 8.23 per cent Government of India FCI Special Bonds, 2027.

F. No. 4 (12)- W&M/2006.— Government of India hereby notifies the issue of 8.23 per cent Government of India FCI Special Bonds, 2027 (hereinafter briefly described as “Special Bonds”) for an aggregate amount of Rs. 6,200 crore (nominal) on February 12, 2007.

1. Eligibility for making subscription to the Special Bonds and limits of subscription.

Only the Food Corporation of India (hereinafter referred to as ‘FCI’) shall be eligible to subscribe to the Special Bonds. No other person including any bank, company, corporation or any other body, shall be eligible to subscribe to the Special Bonds.

2. Price

The Special Bonds shall be issued at par for a minimum amount of Rs. 10,000 (Nominal) and in multiples of Rs. 10,000 thereafter.

3. Application

The Special Bonds shall be issued on application from FCI as per proforma in Annex.

4. Form of Security

The Special Bonds will be issued in the form of stock, i.e. ‘Stock Certificates’ or by credit to Subsidiary General Ledger Account maintained with Public Debt Office of the Reserve Bank of India, Fort, Mumbai.

5. Commencement of tenure and date of repayment

The tenure of Special Bonds will commence from February 12, 2007. Interest on the Special Bonds will accrue from the date of commencement of tenure. The special Bonds will be repaid at par on February 12, 2027 at Public Debt Office, Reserve Bank of India, Mumbai.

6. Interest

The Special Bonds will bear interest at the rate of 8.23 per cent per annum. Interest will be reckoned from the date of commencement of tenure of the Special Bonds and will be payable half yearly on August 12 and February 12 till maturity of the Special Bonds.

Interest on the Special Bonds will be payable at Public Debt Office, Reserve Bank of India, Fort, Mumbai. Interest will be paid after rounding off the amount of interest to the nearest rupee.

7. Transferability

(i) Subject to the provisions of paragraph 4 of the notification, the Special Bonds can be renewed, sub-divided, consolidated, converted and transferred by the holder in accordance with the provisions of the Public Debt Act, 1944 and Public Debt Rules, 1946 framed thereunder.

(ii) Notwithstanding what is stated in paragraph 1 hereinabove, there will be no restriction on the transfer of the Special Bonds by the subscribers in favour of any other person including

banks, corporation or any other body and the transferee of such security would also be entitled to hold and transfer the same in such manner.

8. Statutory Provisions

With respect to any such matter which has not been provided under this Notification, the Special Bonds shall be governed by the Public Debt Act, 1944 and the Public Debt Rules, 1946 framed thereunder.

9. Applicability of Tax Law

The value of the investment in the Special Bonds and the interest payable thereon will be governed by the provisions of tax laws as applicable from time to time.

10. Eligibility of Bonds

The investment in Special Bonds by Food Corporation of India or the banks or other institutions including Financial Institutions, Corporations or any other body to which the bonds are subsequently transferred would not be considered as an eligible investment in Government securities in pursuance of any statutory requirement as the case may be.

By Order of the President of India

L. M. VAS, Jt. Secy.

ANNEX

Place:

Date:

The Regional Director,
Public Debt Office,
Reserve Bank of India,
Mumbai-400 001

Subject: 8.23 per cent Government of India FCI Special Bonds, 2027

Sir,

In terms of Government of India, Ministry of Finance, Notification F.No.4 (12) W&M/2006 dated February 12, 2007, we are eligible to subscribe to the captioned Bonds for an aggregate amount of Rs. _____ crore.

We accept the terms and conditions governing the Special Bonds and request you to issue the bonds in our favour.

Yours faithfully,

Signature:

Name:

Designation:

Office Seal/Stamp

459 9707-2